

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ने कोलिशन कान्फ्रेंस में 35,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष ब्रैम्पटन को प्रदर्शित किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (30 जून, 2022) – पिछले सप्ताह, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने टोरोंटो (Toronto) में कोलिशन कान्फ्रेंस (Collision Conference) में 130 से अधिक देशों के, 35,000 से अधिक उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और प्रभावशाली व्यक्तियों की सोल्ड-आउट कान्फ्रेंस में, दो से अधिक वर्षों के, सबसे बड़े व्यक्तिगत टेक जनसमूह में ब्रैम्पटन को प्रदर्शित किया।

ब्रैम्पटन बूथ ने तीन दिनों तक हज़ारों आगंतुकों (विजीटर्स) को आकर्षित किया, जिनमें शामिल हैं, सरकार के मंत्री और स्पोर्ट्स तथा मीडिया की शख्सियतें। इसने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट और इसके साझेदारों, ब्रैम्पटन आंत्रप्रीनर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre), BHive ब्रैम्पटन (BHive Brampton), अल्टीट्यूड एक्स्लरेटर (Altitude Accelerator), द फाउंडर इंस्टीट्यूट (The Founder Institute), अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University), शेरिडन कॉलेज (Sheridan College), रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट (Rogers Cybersecure Catalyst), ब्रैम्पटन वेंचर ज़ोन (Brampton Venture Zone) और विशेष मेहमान ब्रैम्पटन बैटमैन (Brampton Batman) को प्रदर्शित किया।

स्टार्ट-अप्स उद्यमियों और कम्युनिटी के लिए एक मज़बूत ईकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट (Brampton Economic Development) ने, उच्च गुणवत्ता लीड्स बनाने, मौजूदा कार्पोरेट संबंधों को मज़बूत करने और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और आंत्रप्रीनरशिप के स्थानों में सिटी के ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। ब्रैम्पटन टीम, सैंकड़ों कैनेडियन और अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट-अप्स, वेंचर कैपिटल फर्मों, एंजल्स तथा निवेशकों से जुड़ी है और उन्हें ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Brampton Innovation District) में आने के लिए आमंत्रित किया है – जिनमें से कईयों ने उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामिंग से जुड़ने में रुचि दर्शाई है।

विविधता, बराबरी और भागीदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के तौर पर, ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ने कोलिशन कान्फ्रेंस आयोजकों के साथ काम किया है, जिन्होंने ब्रैम्पटन के 362 ब्लैक आंत्रप्रीनर्स और यूथ के डेलिगेशन को कोलिशन कान्फ्रेंस में शामिल होने, उसका लाभ लेने और उसमें हिस्सा लेने के लिए, कंफ्लिमेंट्री टिकटें स्पांसर की। सिटी ने कोलिशन में शामिल होने वाले, युवा ब्लैक आंत्रप्रीनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए, बिल्ड ब्लैक कॅनेडा (Build Black Canada) के नेटवर्किंग और सशक्तिकरण रिसेप्शन में भी सहायता की।

सिटी एकमात्र ऐसी म्युनिसिपल्टी थी, जिसने कोलिशन प्रोग्राम में आयोजित अफ्रीका डे (Africa Day) में हिस्सा लिया – यह एक कार्यक्रम था, जिसकी मेजबानी बी.के.आर. कैपिटल (BKR Capital), टेकस्टार्स (TechStars) और ड्रीम लीगोसी फाउंडेशन (Dream

Legacy Foundation) के द्वारा की गई थी, जिन्होंने कोलिशन में अफ्रीका के टॉप स्टार्ट-अप्स का जशन मनाया और उन्हें प्रदर्शित किया।

ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के 15 से अधिक स्टार्ट-अप्स को अपने विचार पेश करने का अवसर मिला था और उन्होंने कान्फ्रेंस में अपने खुद के बूथ के साथ प्रदर्शित किया। ब्रैम्पटन बूथ ने ब्रैम्पटन की प्रतिभा विकास पाइपलाइन प्रदर्शनी की भी मेजबानी की, जिसमें लाइव रोबोटिक्स डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया गया, जिसका नेतृत्व शेरीडन कॉलेज के सेंटर फॉर एडवांस्ड मेन्युफेक्चरिंग एंड डिजाइन टेक्नोलॉजीस (Centre for Advanced Manufacturing and Design Technologies) के द्वारा किया गया, इसके साथ ही अल्गोमा यूनिवर्सिटी के नए ईस्पोर्ट्स (Esports) प्रोग्राम का स्पॉटलाइट भी प्रदर्शित किया गया।

### कोलिशन के बारे में

[कोलिशन \(Collision\)](#), उत्तरी अमेरिका (North America) में सबसे तेजी से बढ़ रही टेक कान्फ्रेंस है, यह “दुनिया के सबसे बढ़िया स्पीकरों”, टेक की मुख्य कंपनियों और टॉप मीडिया को इकट्ठे लाती है। यह चौथी बार है, जब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस (Economic Development Office) टीम ने, अपने [ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट \(Brampton Innovation District\)](#) के साझेदारों और विशेष मेहमान, ब्रैम्पटन बैटमैन के साथ मिलकर इकट्ठे, ग्लोबल कार्यक्रम में हिस्सा लिया है।

### ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में

सिटी लगातार, इनोवेशन और उद्यमी ईकोसिस्टम बनाकर, अपने डाउनटाउन का पुनर्निर्माण कर रही है और इसकी आर्थिक क्षमता का अधिकतम लाभ ले रही है: ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Brampton Innovation District)

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का स्पष्ट ध्यान, स्टार्ट-अप स्केलिंग, निवेश आकर्षण और प्रतिभा विकास पर है और यह उद्यमियों और नए कारोबारों के लिए लोकल सहायता प्रदान करता है। यह नई टेक्नोलॉजी बनाने में, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कंपनियों की सहायता के लिए संसाधन भी पेश करता है। 2019 में समझौते शुरू करके, सिटी ने अपने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साझेदारों के द्वारा किए जा रहे निवेशों में, लगभग 55.2 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश के साथ, लगभग 20.5 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए प्रतिबद्धता की है।

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए, [www.bramptoninnovationdistrict.com](http://www.bramptoninnovationdistrict.com) पर जाएं या सिटी का [इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट वीडियो \(Innovation District video\)](#) देखें।

### हवाले

“कोलिशन दुनिया में टॉप टेक कान्फ्रेंसेज में से एक है, जो लोगों, शानदार विचारों और दुनिया की बड़ी कंपनियों को साथ लाती है। मुझे पिछले सप्ताह यह उजागर करने के लिए कोलिशन में हमारी इकोनॉमिक टीम से जुड़ने का सम्मान मिला कि ब्रैम्पटन निवेशन करने के लिए एक मुख्य स्थान है। हमारी सिटी में रोमांचक परिवर्तन हो रहा है और हमारे साझेदारों के साथ मिलकर इकट्ठे हम, हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट को एक बड़े शिक्षा और इनोवेशन केंद्र में विकसित कर रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन, आंत्रप्रोनर्स और स्टार्ट-अप्स के संपन्न होने के लिए शानदार संसाधनों वाला अवसरों का शहर और हमारे साझेदारों के साथ मिलकर इकट्ठे हम, हमारे निवासियों और कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक इनोवेशन सिस्टम बना रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टीम का धन्यवाद कि उन्होंने पिछले सप्ताह, कोलिशन में 35,000 ग्लोबल दर्शकों के समक्ष ब्रैम्पटन को प्रदर्शित किया। ब्रैम्पटन का अर्थ है कारोबार, और हम लगातार हमारी कम्युनिटी में बड़ी ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने और जोड़कर रखने के लिए उत्साहित हैं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारा ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस लगातार, हमारी संपूर्ण कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए, हमारे शहर को शिक्षा और इनोवेशन केंद्र में विकसित करने का नेतृत्व कर रहा है। हमारी टीम का धन्यवाद कि उन्होंने पिछले सप्ताह कोलिशन कान्फ्रेंस में, सोल्ड आउट, ग्लोबल दर्शकों के समक्ष ब्रैम्पटन की ताकतों को उजागर किया। हम यह सिद्ध करने के लिए कि ब्रैम्पटन निवेश करने के लिए एक मुख्य स्थान है और इनोवेशन कॉरिडोर पर ब्रैम्पटन की बेजोड़ स्थिति स्थापित करने के लिए समर्पित हैं।”

- क्लेयर बार्नेट (Clare Barnett), डायरेक्टर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)